



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष 1932 (श०)
(सं० पटना 801) पटना, शुक्रवार 24 दिसम्बर 2010

सं० 3ए2-वे०पु०-12/2009 (भाग-II)—14301

वित्त विभाग

संकल्प

22 दिसम्बर 2010

विषय:—बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प सं. 13070, दिनांक 21 दिसम्बर 2006 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को रु० 1250 (एक हजार दो सौ पचास रु० मात्र) प्रतिमाह घरेलू सहायता भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. पद्मनाभन समिति की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि० 26 जुलाई 2010 के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के घरेलू सहायता भत्ता के पुनरीक्षण का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के दिनांक 01 अगस्त 2010 के प्रभाव से रु0 2500 (दो हजार पाँच सौ रु0 मात्र) प्रतिमाह घरेलू सहायता भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। साथी ही न्यायिक सेवा के पारिवारिक पेंशनधारी को रु0 1000 (एक हजार रु0 मात्र) प्रतिमाह घरेलू सहायता भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

4. उपर्युक्त घरेलू सहायता का भुगतान दिनांक 01 अगस्त 2010 के प्रभाव से नगद रूप में किया जाएगा ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मदन मोहन प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 801-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>